

प्रेस नोट ए.एच.टी.यू. जनपद गोरखपुर दिनांक 16-10-2020

गोरखपुर से 05 नाबालिग बच्चों को मानव तस्करी कर 02 अभि0 गणों द्वारा हिसार ले जा रहे नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू व अभियुक्तों की गिरफ्तारी ए.एच.टी.यू. जनपद गोरखपुर

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाए जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गोरखपुर के दिशा निर्देश व पुलिस अधीक्षक अपराध श्री अशोक कुमार वर्मा के कुशल मार्गनिर्देशन में एएचटीयू गोरखपुर प्रभारी उप निरीक्षक दिनेश कुमार के नेतृत्व में मय टीम सहित तलाश गुमशुदा/ लापता, नाबालिग, भूले भटके, बाल श्रम, बाल व्यापार(मानव तस्करी) रोकथाम आदि के सम्बन्ध में गोरखपुर नगर क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि जरिए दूरभाष सूचना मिली कि 02 मानव तस्कर 05 नाबालिग बच्चों को गोरखपुर से हिसार बालश्रम/ मजदूरी कराने के लिए ट्रेन के इंतजार में हैं। इस सूचना पर विश्वास करके कर्म0गण को साथ लेकर दिनांक 15.10.2020 को रेलवे स्टेशन, गोरखपुर के प्लेटफार्म सं0 02 पर सूचना देने वाले को साथ लेकर उनके बताये गये स्थान पर पहुंचकर बारी-बारी से गहन पूछताछ एवं छानबीन करने पर ज्ञात हुआ कि 02 मानव तस्कर मिलकर 05 नाबालिग बच्चों को गोरखपुर से हिसार बालश्रम/ मजदूरी कराने के लिए तस्करी करके ले जा रहे हैं, विश्वास करके 02 मानव तस्करों के चंगुल से 05 नाबालिग बच्चों को अवमुक्त/ रेस्क्यू किया गया तथा दोनों मानव तस्करों को उनके किये गये कृत का अपराध बताकर मा0 सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए दिनांक 15-10-2020 को समय 15.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। रेस्क्यू किये गये नाबालिग बच्चों का कोविड-19 जाँच परीक्षण कराकर आवश्यक वैधानिक कर्यवाही हेतु चाइल्ड लाईन गोरखपुर को सुपुर्द किया गया तथा 02 मानव तस्करों का भी कोविड-19 जाँच परीक्षण कराकर उनके विरुद्ध थाना कैंट में मु0अ0स0 1279/2020 धारा 370(5) भादवि, व 79 किशोर न्याय अधिनियम एवं 3 CLPR ACT पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता

- 1.विनोद कुमार S/O मोतिलाल R/O रामनगर थाना नौतनवां जनपद महाराजगंज, उ0प्र0
- 2.विनोद S/O शिवकुमार R/O कजरी थाना नौतनवां जनपद महाराजगंज, उ0प्र0

अभियोग जिसमें गिरफ्तारी की गई का विवरण

मु0अ0स0 1279/2020 धारा 370(5) भादवि व 79 किशोर न्याय अधि0 एवं 3 CLPR ACT

गिरफ्तारी का स्थान व समय

रेलवे स्टेशन, गोरखपुर के प्लेटफार्म सं0 02 दिनांक 15-10-2020 समय 15.30 बजे

टीम के सदस्य गण

- 1.उ0नि0 दिनेश कुमार प्रभारी एएचटीयू जनपद गोरखपुर
- 2.का0 अखिलेश कुमार एएचटीयू जनपद गोरखपुर
- 3.का0 भीम कुमार यादव एएचटीयू जनपद गोरखपुर
- 4.का0 विनोद सोनकर एएचटीयू जनपद गोरखपुर
- 5.म0का0 नीतू यादव एएचटीयू जनपद गोरखपुर